




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण,
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 146]

No. 146]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1979/चैत्र 10, 1901

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1979/CHAITRA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1979

का०आ० 182 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर, 31 मार्च, 1979 से बिहार राज्य में मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि बिहार राज्य के मधुबनी जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1-33/79-आर०आर०बी० (I)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
BANKING DIVISION
NOTIFICATIONS
New Delhi, the 31st March, 1979

S. O. 182(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from the 31st March, 1979, a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Madhubani Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Madhubani in the State of Bihar.

[No. F. 1-3/79-RRB(I)]

का०आ० 183 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 1378 GI/78

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करके, मधुबनी को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-3/79-आर०आर०बी० (II)]

S.O. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India by which Madhubani Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Madhubani as the place where Madhubani Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-3/79-RRB(II)]

का०आ० 184 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ० 1-3/79-आर०आर०बी० (III)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 184(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Madhubani Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-3/79-RRB(III)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक
(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग बम्बई)
अधिसूचना
बम्बई, 31 मार्च, 1979

का० आ० 185 (अ)—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक का समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—
मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी ।

[डी०बी०प्रो०डी० संख्या 162/आई०एन०सी०एल०/सी-102-79]
एम० रामकृष्णैया उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA
(Department of Banking Operations and Development Bombay)

NOTIFICATION

Bombay, the 31st March, 1979

S.O. 185(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Madhubani Kshetriya Gramin Bank, Madhubani.

[DBOD. No. 162/INCL/C. 102-79]
M. RAMAKRISHNAYYA. Dy. Governor.